



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939

No. 364]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

**सा.का.नि. 458(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पटसन आयुक्त का कार्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1963 जहां तक कार्यपालक अधिकारी के पद से संबंधित है, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त के कार्यालय, कोलकाता में कार्यपालक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त का कार्यालय, कार्यपालक अधिकारी भर्ती नियम 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—**वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यपालक अधिकारी	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित/प्रोन्नति): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या सरकारी या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन.—
(क) i. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या

ii. मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-8 (47600-151100 रु.) में वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य प्रशासनिक अधिकारी के पद में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या

iii. संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में प्रशासनिक अधिकारी के पद में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों.—

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बेचलर डिग्री ;

(ii) लेखाओं, प्रशासन और सरकार कार्यालय के स्थापन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त कानूनी निकाय में तीन वर्ष का अनुभव

**टिप्पण—1** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) में ऐसा विभागीय प्रशासनिक अधिकारी जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा और यदि पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन किया जाता है, उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

**टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण—3** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह ' ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
पटसन आयुक्त	
-अध्यक्ष	
पटसन आयुक्त (लागत)	
-सदस्य	
वस्त्र मंत्रालय में पटसन आयुक्त के कार्यालय से संबंधित मामले को देखने वाला अवर सचिव	
-सदस्य	

[फा. सं 4/10/2007 -पटसन खंड.॥ भाग-ग]

ए.मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017.

**G.S.R. 458(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Jute Commissioner (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Executive Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Officer, in the Ministry of Textiles, Office of the Jute Commissioner, Kolkata, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1).—These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Jute Commissioner, Executive Officer Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other persons,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Executive Officer	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group – A, Gazetted, Ministerial.	Level -10. (Rs.56100-177500)	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Deputation (including short term contract/ promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation including short term contract/ promotion. Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or Government or semi-Government or Statutory or autonomous organisations-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the post of Administrative Officer in level -8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>iii) with three years regular service in the post of Administrative Officer in the level - 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following qualification and experience :-</p> <p>(i) Bachelor's Degree from recognised University or institute;</p> <p>(ii) three years' work experience in accounts, administration, and establishment in a Government office or Public sector undertaking or any autonomous or statutory body.</p> <p><b>Note 1 :</b> The Departmental Administrative Officer in level- 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled-up by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Jute Commissioner- -Chairman</li> <li>2. Joint Director (Cost) -Member</li> <li>3. Under Secretary dealing with matters relating to the office of the Jute Commissioner in the Ministry of Textiles -Member</li> </ol>	<p>consultation with the Union Public Service Commission is necessary.</p>

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 4/10/2007-Jute Vol. II Pt.-C]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

**सा.का.नि. 459(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पटसन आयुक्त (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1963 जहां तक प्रशासनिक अधिकारी के पद से है और पटसन आयुक्त वर्ग 3 और वर्ग 4 (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 1966 जहां तक अधीक्षक के पद से संबंधित है, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता, वस्त्र मंत्रालय में प्रशासनिक अधिकारी और अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त का कार्यालय, प्रशासनिक अधिकारी और अधीक्षक भर्ती नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना –** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध की अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—**वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रशासनिक अधिकारी	01* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	स्तर—7 (44900-142400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्रित, अनुसचिवीय				
--	--	----------------------	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)
<b>प्रोन्नति द्वारा:—</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35400-112400 रु.) में ऐसा अधीक्षक जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापन तथा लेखाओं के क्षेत्र में दो सप्ताह के प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक किया गया हो।
<b>टिप्पणी:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी</b> 1. उप पटसन आयुक्त -अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक -सदस्य 3. वस्त्र मंत्रालय में पटसन आयुक्त के, कार्यालय संबंधित मामले को देखने वाला अवर सचिव -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना नहीं आवश्यक है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अधीक्षक	05* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर—6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।

(11)
<p><b>प्रोन्नति द्वारा:—</b>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)</p> <p><b>टिप्पणी:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी</b></p> <p>1. उप पटसन आयुक्त -अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक -सदस्य</p> <p>3. वस्त्र मंत्रालय में पटसन आयुक्त के कार्यालय संबंधित मामले को देखने वाला अवर सचिव -सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं 4/10/2007 -पटसन खंड.॥ भाग-ग]

ए.मधुकुमार रेड्डी , संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017.

**G.S.R. 459(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Jute Commissioner (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Administrative Officer, and the Jute Commissioner, Class III and Class IV (Non gazetted) posts Recruitment Rules, 1966, in so far as they relate to the post of Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer and Superintendent, in the Ministry of Textiles, Office of the Jute Commissioner, Kolkata, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Jute Commissioner, Administrative Officer and Superintendent, Recruitment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limits, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
5. **Disqualification.**—No person,-  
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other persons,  
 shall be eligible for appointment to the said posts;  
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempts any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
7. **Saving.**—Nothing in those rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Administrative Officer	1* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7. (Rs.44900-142400)	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<b>By promotion:-</b> Superintendent in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and successful completion of training of two weeks in the field of administration, establishment and accounts.	<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b> (1) Deputy Jute Commissioner —Chairman (2) Joint Director (Cost) —Member (3) Under Secretary dealing with matters relating to the Office of the Jute Commissioner, Ministry of Textiles —Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

<p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Superintendent	5* ( 2017) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6. (Rs.35400-112400)	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
<p><b>By promotion :</b> Promotion from the post of Upper Division Clerk in the level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and successful completion of two to four weeks training regarding office management and procedures from any recognised training institute required for promotion.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotional Committee/ Departmental Confirmation Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1) Deputy Jute Commissioner : –Chairman (2) Joint Director or Deputy Director –Member (3) Under Secretary dealing with matters relating to the office of The Jute Commissioner in Ministry of Textiles:- -Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 4/10/2007-Jute Vol. II Pt.– C]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.